



दिनांक- 18.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## गुम हुए मोबाइल पाकर खिले मोबाइल धारको के चेहरे सर्विलांस टीम को दिया धन्यवाद



आज दिनांक 18.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे गुम हुए मोबाइलो की बरामदगी अभियान के तहत एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में जनपद में स्थापित सर्विलांस शाखा द्वारा **20 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 3,00,000/-रूपये (तीन लाख रूपये)** की बरामदगी की गई है। बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में वितरित किया गया। अपने खोये हुए मोबाइल पाकर शिकायतकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की ओर महोबा पुलिस/सर्विलांस टीम को धन्यवाद दिया।



दिनांक- 18.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## बरामद करने वाली सर्विलांस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री राहुल परमार (प्रभारी सर्विलांस सेल महोबा)
2. कां0 अंशुल दुवे
3. कां0 दीपक वर्मा
4. कां0 सत्यम सिंह





दिनांक- 18.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## “राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह” का पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया शुभारम्भ



आज दिनांक 18.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 18/01/2021 से 17/02/2021 तक आयोजित होने वाले “राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह” का रोडवेज बस स्टैंड पर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि हमें यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाये समय फोन का इस्तेमाल न करें, ट्रैफिक सिग्नल न तोड़े, शराब पीकर ड्राइविंग न करें, हेलमेट व शीट बेल्ट का

प्रयोग करें आदि कई नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस बावत उपस्थित लोगो को पुलिस अधीक्षक द्वारा शपथ भी दिलाई गई।

इस मौके पर एआरटीओ श्री सुरेश कुमार वर्मा, एआरएम श्री हेमन्त मिश्रा, पीटीओ श्री आर०के० पटेल, व्यापार मण्डल अध्यक्ष श्री रामजी गुप्ता, बस यूनियन के सदस्य, यातायात प्रभारी उ०नि० श्री अरविन्द मिश्रा मय टीम के उपस्थित रहे।





दिनांक- 18.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## “मिशन शक्ति” टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को उनकी सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों से किया जागरूक...।



प्रधानाचार्य श्री नीरेन्द्र राजपूत की उपस्थिति में आयोजित की गयी जहां पर उपस्थित छात्राओं को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन व नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें हेल्पलाइन नम्बरों- 1090,181,112,1076 आदि नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी दी गई।



उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 पुलिस के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक किये जाने हेतु चलाये जा रहे महाभियान \*मिशनशक्ति\* के तहत आज दिनांक 18.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे **“मिशन शक्ति”** महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम द्वारा मृत्युंजय इण्टर कालेज, सूपा-चरखारी, महोबा में



दिनांक- 18.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## अग्निशमन टीम द्वारा होटलों का निरीक्षण कर वहां लगे अग्निशामक यंत्रों को चलाने का दिया गया प्रशिक्षण:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर अग्निशमन टीम द्वारा जनपद महोबा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाता रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 18/01/2021 को मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महोबा(श्री राहुल पाल) के पर्यवेक्षण में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी(देवेश तिवारी) एवं फायर सर्विस टीम( चालक सरफराज खान, एलफम माखन लाल, फायरमैन गौरव) द्वारा सदर तहसील के अंतर्गत होटल एवं लाज का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया एवं होटलों में लगे अग्निशमन उपकरण को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। जिसके माध्यम से वह इसका उपयोग कर वह किसी भी तरह की आग पर काबू पा सकें और किसी भी अप्रिय घटना से खुद के साथ-साथ औरों को भी बचा सकें।





दिनांक- 18.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## जनपदीय पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के तहत पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गयी एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान

आज दिनांक 18.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद के सभी थानों में जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के मद्देनजर पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गयी तथा इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त कर संदिग्धों/अराजक तत्वों/होटल/ढाबा/मुख्य बाजार आदि जगहों की चेकिंग की गई, इसके साथ ही आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल/शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराये जाने के क्रम में थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग की गयी तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग व पूछताछ की गई। **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **24 व्यक्तियों से 3000 /-रु०** जुर्माना व **76 ई-चालान किये गये।**





दिनांक- 18.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



सोशल मीडिया सेल  
दिनांक 18.01.2020

Good Morning  
Mahoba

सर्द मौसम की सुबह की शुरुआत महोबा पुलिस के साथ

